

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2025—पौष 19, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2025

क्र. एफ-1-5-5-0009-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा, अनुसूची-एक में सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :—

अनुसूची-एक

(1) सामान्य प्रशासन विभाग

अनुसूची—“दो”

दिव्यांगजनों के लिये चिन्हाकृत पदों की जानकारी

विभाग का नाम :— सामान्य प्रशासन विभाग (आधीक्षण शाखा)

पद की श्रेणी	पद/सर्वर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल संख्यकृत पद	विकल पद (3- 3a)	नियुक्तजनों के लिए चिन्हां किते पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु विचारकृत पद/मरे पद/विकल पद की जानकारी																
					विकल पद	मरे पद	विकल पद	मरे पद	विकल पद	मरे पद	विकल पद	मरे पद	विकल पद	कुल योग (5+8+ 11+14)	कुल योग (6+9+ 12+15)	कुल रिक्त पद (7+ 10+ 13+ 16)					
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
विवर	मृत्यु	396	282	134	24	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6	0	6	24	6	18	
	योग	396	282	134	24	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6	0	6	24	6	18	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.